

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2017–18

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित लिकिवड आक्सीजन प्लाण्ट में ऑक्सीजन मेनीफोल्ड तथा कंट्रोल पैनल की स्थापना तथा SGMH एवं GMH में पूर्व में स्थापित पाईपलाईन तक विस्तार एवं समस्त मेडिकल गैस पाईपलाईन की सी.एम.सी. हेतु ई-निविदा वर्ष 2017–18

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 3000/-
(रूपये तीन हजार मात्र)

निविदा क्रमांक— 25 / 2017–18

ONLINE TENDER SCHEDULE

| SEQ NO | SCHEDULE | START DATE & TIME | EXPIRY DATE & TIME | ENVELOPES |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | PURCHASE OF TENDER ONLINE | 12-01-2018 11.00 AM | 01-02-2018 5.00 PM | ENVELOPE A, ENVELOPE B |
| 2 | BID SUBMISSION ONLINE | 12-01-2018 11.00 AM | 01-02-2018 5.00 PM | |
| 3 | PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT | 12-01-2018 11.00 AM | 03-02-2018 5.00 PM | ENVELOPE A, ENVELOPE B |
| 4 | MANDATORY SUBMISSION OPEN | 06-02-2018 12.30 PM | — | ENVELOPE A |
| 5 | TECHNICAL PROPOSAL OPEN | 06-02-2018 12.35 PM | — | ENVELOPE B |
| 6 | FINANCIAL BID OPEN | पृथक से सूचना दी जावेगी। | — | |

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 03.02.2018 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सीलय रीवा म.प्र. 486001 में जमा करें। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई—मेल:— jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662—242104
संपर्क:— 07662—242104, +91—9179705483, +91—9644695933

निविदा प्रस्तुत करनें संबंधी सामान्य निर्देश:—

- प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सील्ड लिफाफे ए एवं बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:—

- धरोहर राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी मेरखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (एसेसमेन्ट ईयर 2016–17 एवं 2017–18) का स्वयं का अथवा फर्म का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
3. 100 रु. के नान-ज्यूडिषियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
4. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति
6. मेडिकल गैस पाईपलाईन संबंधी कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य आदेष की छायाप्रति।

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित लिकिवड आक्सीजन प्लाण्ट में ऑक्सीजन मेनीफोल्ड तथा कंट्रोल पैनल की स्थापना तथा **SGMH** एवं **GMH** में पूर्व में स्थापित पाईपलाईन तक विस्तार एवं समस्त मेडिकल गैस पाईपलाईन की सी.एम.सी. हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें

1. चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित लिकिवड आक्सीजन प्लाण्ट में ऑक्सीजन मेनीफोल्ड तथा कंट्रोल पैनल की स्थापना तथा **SGMH** एवं **GMH** में पूर्व में स्थापित पाईपलाईन तक विस्तार एवं समस्त मेडिकल गैस पाईपलाईन की सी.एम.सी. हेतु ई-निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म करने का मूल्य रु. 3000.00 (तीन हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दषा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं होगी उसकी अमानती राशि वापस की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफट पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. शासनहित/जनहित में अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।

7. निविदाकार को निविदा के साथ पैन कार्ड की छायाप्रति एवं जी.एस.टी. नं. की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
8. मेडिकल गैस पाईपलाईन संबंधी कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु जारी कार्यादेश की सत्यापित छायाप्रति भी लगाना अनिवार्य होगा।
9. इच्छुक निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व डा. सुधाकर द्विवेदी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष निष्ठेतना विभाग से मोबाइल नं. 9425194546 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी संबंध में दिनांक 24.01.2018 को इच्छुक निविदाकारों की दोपहर 12:30 बजे अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है जिसमें प्रस्तावित कार्य के संबंध में चर्चा की जावेगी।
10. निविदाकार को 20+20+8 इमरजेन्सी ऑक्सीजन मेनीफोल्ड, फुल ऑटोमेटिक कन्डोल पैनल लिकिंड ऑक्सीजन प्लांट से एसजीएमएच के मैनीफोल्ड, जीएमएच के गायनी विभाग षिषु रोग विभाग के मैनीफोल्ड, गायनी विभाग के आपरेषन थियेटर तक पाईप लाईन का विस्तार किया जाना है इसमें आईसोलेषन वाल्व प्रेषर रेगुलेटर वाल्व, गैस आउटलेट, एरिया अलार्म सिस्टम आदि आवश्यकता अनुसार लगाना होगा। मैनीफोल्ड तथा पाईप लाईन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को स्वयं की अथवा थर्ड पार्टी की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। टेस्ट रिपोर्ट ओके होने पर ही प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जावेगा।
11. निविदा स्वीकृत होकर कार्य हेतु आदेषित करने पर कार्य न करने की दषा में अमानत राषि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
12. पाईपलाईन आई.एस.आई. सर्टिफाईड कंपनी की उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल ग्रेड की होनी चाहिए।
13. सफल निविदाकार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा। मेडिकल गैस पाईपलाईन की 12 माह की वारंटी देना होगी। 12 माह की अवधि के भीतर यदि कोई तकनीकी खराबी आती है, तो निःशुल्क सुधारने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
14. 12 माह की वारंटी अवधि समाप्त होने पर **Comprehensivel Maintainace contract** करना होगा। **Comprehensivel Maintainace contract** अवधि में अनुबंधित राषि के अतिरिक्त पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
15. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अमान्य करने का अधिकार होगा।
16. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
17. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।

18. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा कार्य में कोई हीला-हवाली या टाल-मटोल करके विलम्ब किया जाता है तो जमा अमानत राष्ट्रि रु. 50000.00 (पचास हजार मात्र) राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा भरने से वंचित कर दिया जावेगा।
19. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिषियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा।
20. मेडिकल गैस पाईपलाइन की फिटिंग के बाद पाईपलाइन की वजह से गैस के प्रवाह में यदि रुकावट होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
21. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

प्रपत्र – ए

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

डी.डी. का विवरण

| क्रमांक | डी.डी क्रमांक / दिनांक | बैंक का नाम | राशि | वैधता तिथि |
|---------|------------------------|-------------|------|------------|
| | | | | |

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

Information of Tenderer

Registered Name

Address

Telephone no

Office

Fax

E-Mail Address

Bank Account No.

Branch/IFSC Code

GST NO

Pan NO

Signature of Tenderer
Rubber Stamp

doy vku ykbz Hjk tkosz 1n j i=d1z

jkj %-----

i fr]

I a Dr I pkyd , oav/kh{kld
xkzh Lekjd fpfdRLkky;
jhok e-i z

fok;k; % चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित लिकिवड आक्सीजन प्लाण्ट से ऑक्सीजन मेनीफोल्ड तक पाईप लाईन का विस्तार, कन्ट्रोल पैनल की स्थापना तथा SGMH एवं GMH में पूर्व से स्थापित समस्त मेडिकल गैस पाईप लाईन की सीएमसी हेतु ई-निविदा की दर प्रस्तुत करने बावत।

I nHk& vki ds dk; kly; dh fufonk vke=.k I puk dz-----fnuId

egkn;]

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित लिकिवड आक्सीजन प्लाण्ट से ऑक्सीजन मेनीफोल्ड तक पाईप लाईन का विस्तार, कन्ट्रोल पैनल की स्थापना तथा SGMH एवं GMH में पूर्व से स्थापित समस्त मेडिकल गैस पाईप लाईन की सीएमसी हेतु निम्नानुसार vi uh fufonk njaiLr dj jgk gA

| Sn. | Description | Unit | Rate |
|-----|--|------------------------------------|------|
| 1. | Copper pipeline medical grade with test certificate 22 mm 15mm 12mm | /meter /meter /meter | |
| 2. | Area alarm system ISO certified company One gas Two gas Three gas | Each Each Each | |
| 3. | Semi auto changeover panel(O ₂ Control panel) 20+20+8 ISO certified company | Each | |
| 4. | Fully automatic control panel for oxygen manifold for 20+20+8 ISO certified company | Each | |
| 5. | Isolation Valve ISO certified company 3 Pipeline | /unit | |
| 6. | Gas outlet for O ₂ Air & Vaccume | Each | |
| 7. | Rate for Comprehensive Maintenance contract (1 Year) | | |

fufonkdrk@I oknkrk ds gLrk{kj
uke , oa i wkz irk
I Fkk dh I hy

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)
निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

| स. क्र. | तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज | निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें | परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें । | | |
|------------|---|--|---------------------------------------|-----|------|
| | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| 1. | धरोहर राशि रूपये 50,000 /—(पचास हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो । | | | | |
| 2. | मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित | | | | |
| 3. | वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (एसेसमेन्ट ईयर 2016–17 एवं 17–18) का स्वयं अथवा फर्म का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति) | | | | |
| 4 | 100 रु. के नान—ज्यूडिषियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) | | | | |
| 5 | पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति | | | | |
| 6. | जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति । | | | | |
| 8 | मेडिकल गैस पाईपलाईन संबंधी कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र । | | | | |

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

घोषणा पत्र (षष्ठ पत्र)

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प ऐपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेष राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा मेडिकल गैस पाईपलाईन में जो स्पेयर पाटर्स आवश्यकतानुसार लगाए जावेंगे वे सभी ओरिजिनल होंगे।
9. मेरे/हमारे उपर राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
10. मेरी/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. गवाह का नाम..... | संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम..... |
|व पता..... | पता..... |
| 2. गवाह का नाम..... | संस्था का नाम एवं पता..... |
|व पता | |